

महत्वपूर्ण एवं खास

हाइवा और कार में भिड़ंत, पति-पत्नी की मौत

जशपुर (आरएनएस)। जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाइवा ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में कार सवार पति-पत्नी की मौत हो गई, वहीं दो बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कुनकुरी के कपड़ा व्यवसायी सौरभ अग्रवाल अपनी पत्नी व बच्चों के साथ कार में अपने घर की ओर लौट रहे थे। हाइवा की चपेट में आने से कार सवार सौरभ अग्रवाल की मौके पर मौत हो गई, वहीं पत्नी निशु बंसल को अस्पताल रेफर किए जाने के दौरान रास्ते में उनकी भी मौत हो गई। दोनों बच्चों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

मिक्चर मशीन वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत

उतई (आरएनएस)। दुर्ग जिले के उतई बस स्टैंड डूमरडीह उतई में आज सुबह हुई दर्दनाक सड़क दुर्घटना में मोटर साइकल सवार की घटना स्थल पर मौत हो गई। मृतक का सिर पूरी तरह से कुचला गया था जिसे नगर पंचायत उतई वाई 3 पार्श्व राकेश साहू ने अपने हाथों से उसके सिर के हिस्से को एकत्रित कर पालीथीन में भरा और अपने वाहन से मृत शरीर को पोस्ट मार्टम के लिए ले जाया गया।

नाबालिग से छेड़खानी के आरोप में युवक गया जेल

रायगढ़। दिनांक 07.05.2022 को पुलिस चौकी जूटमिल में जयदीप गोरख (34 साल) के विरुद्ध पीड़ित लड़की की मां बच्चू के साथ छेड़खानी, आपत्तिजनक कृत्य की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्टकर्ता बताई कि दिनांक 06/05/2022 के सुबह लगभग 06 बजे घर के बाहर लड़की खेल रही थी, उसी समय जयदीप गोरख लड़की को चाकलेट देने के बहाने घर के पीछे बने टंकी के पास ले जाकर उसे पकड़े हुआ था, छत ऊपर से बालिका की रिस्तेदार देखी और चिल्लाई। तब घर परिवार के लोग दौड़कर पहुंचे, जयदीप गोरख उनके साथ गाली गलौच झगड़ा, मारपीट करने लगा। बाद में घटना की जानकारी पीड़ित बालिका की मां को हुई। तब वह बच्चू से पूछी तो जयदीप गोरख उसके साथ आपत्तिजनक तरीके से गलत हरकत (छेड़खानी) करना बताई। जूटमिल पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड बाद जेल दाखिल किया गया है।

बस से 22 किलो गांजा के साथ 1 गांजा तस्कर गिरफ्तार

जगदलपुर (आरएनएस)। जिले के थाना नगरपाल पुलिस को मिली सूचना पर छत्तीसगढ़-उडीसा के सीमाक्षेत्र धनपुंजी में मोबाइल चेक पोस्ट लगाकर जांच के दौरान एक बस से एक गांजा तस्कर राजवीर सिंह पिता शिशुपाल सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी उत्तर प्रदेश के कब्जे से 22 किलोग्राम गांजा बरामद कर एनडीपीएस, एक्ट 20(बी) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से 22 किलोग्राम गांजा, 01 मोबाइल एवं अन्य कागजात जप्त किया गया है। जप्तशुदा गांजा की अनुमानित कीमती 02 लाख 20 हजार रुपये आंकी गई है।

अधेड़ व्यक्ति की निर्मम हत्या, मामला दर्ज

कवर्धा (आरएनएस)। एक अधेड़ व्यक्ति की निर्मम हत्या,सिर कुचल कर उतारा गया मौत के घाट, मृतक की पहचान भुवन गंधर्व के रूप में हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कोतवाली थाने के सरोदा बांध रोड की घटना पुलिस द्वारा अभी कोई जानकारी नहीं मिली। जिले में यह 20 दिन में हत्या की 5 वीं घटना।

मोबाइल दुकान में चोरी को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

आरोपियों से लाठी रुपये के चोरी के समान के साथ चोरी में प्रयुक्त मोटर साइकल की जप्त

रायगढ़। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा करीब एक माह पहले सिसरिंगा के मोबाइल दुकान में नकबजनी को अंजाम देने वाले 3 शांति चोरों को गिरफ्तार कर आरोपियों से मोबाइल दुकान से चोरी गये लगभग सारे सामानों के अलावा अन्य स्थानों से चोरी के माल की बरामदगी की गई है, आरोपियों द्वारा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के स्टोरेज बाक्स (DBR) भी साथ ले गये थे, धरमजयगढ़ पुलिस लगातार एक माह तक संदिग्ध एवं पूर्व चोरी में शामिल आरोपियों से पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंची। गिरफ्तार आरोपियों ने अपने अन्य साथियों के साथ लैलंगा थानाक्षेत्र में भी चोरी को अंजाम देना कबूल किया है, जिसकी तस्दीक की जा रही है। आरोपियों को धरमजयगढ़ नकबजनी के अपराध में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

घटना के संबंध में मोबाइल दुकान संचालक के भाई असीम शौक निवासी ग्राम सिसरिंगा दिनांक 04.04.2022 को थाना धरमजयगढ़ में रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनका ग्राम सिसरिंगा में मोबाइल दुकान है। दिनांक 03-04/04/2022 के दरम्यानी रात मोबाइल दुकान का ताला आरोपियों से काट कर अज्ञात चोर दुकान में रखा 1-इटेक्स होम थिएटर एक नग, 2-पावर बैंक 5 नग, 3- ब्लूटूथ एयर फोन 10 नग, 4- जियो बैटरी 50 नग, 5-नया मोबाइल 10 नग, 6-जियो फोन 5 नग, 7- ऑक्स वायर 12 नग, 8- एंड्राइड बैटरी 20 नग, 9-सीसीटीवी एक नग, 10- कैमरा हार्ड डिस्क पूरा सेट, 11- मोबाइल कोम्बो 52 नग, 12- जियो फोन एलसीडी 50 नग, 13- डीपी टर्च 12 नग, 14- हट गन एक नग, 15- मोबाइल हीटर एक नग, 16- मोबाइल रिपेयरिंग का पूरा सेट पाना पेचकस सोल्विंग आयनर, 17- ग्राहक का रिपेयरिंग मोबाइल पुराना टच वाला 45 नग, 18- जियो फोन पुराना रिपेयरिंग वाला 25 नग, 19- दुकान का रिचार्ज वाला मोबाइल व अन्य 2-3



मोबाइल चोरी हुये हैं जिनके सामान का अनुमानित मूल्य 3,82,000 रुपये है। चोरी के रिपोर्ट पर थाना धरमजयगढ़ में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अप.क्र. 47/2022 धारा 475,380 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अज्ञात चोर दुकान में कोई सबूत नहीं छोड़े, वहीं दुकान में लगा CCTV कैमरे और DBR भी साथ ले गये। घटनास्थल के आसपास अन्य स्थानों पर CCTV कैमरे नहीं लगा था। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मोणा एवं एएसपी लखन पटेल द्वारा थाना प्रभारी धरमजयगढ़ एवं स्ट्राफ को लंबित चोरियों में माल मुल्जिम पतासाजी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये। एसडीओपी धरमजयगढ़ द्वारा धरमजयगढ़ पुलिस के साथ सायबर सेल को भी माल मुल्जिम पतासाजी में लगाया गया तथा धरमजयगढ़ पुलिस को चोरी, नकबजनी में चालान हुये आरोपियों व संदिग्ध प्रवृत्ति से व्यक्तियों से चोरी के संबंध में पूछताछ कर पतासाजी का निर्देश दिये। इसी बीच पुलिस को मुखबिर से थाना कापू क्षेत्र के ग्राम अलोला के रहने वाले रवि बंजारा एवं उनके साथियों के पास चोरी गये मोबाइल रखे होने की जानकारी मिली जिस पर पुलिस टीम द्वारा ग्राम अलोला संदेही रवि बंजारा, प्रमोद कुमार बंसोड और हस्त कुमार बंजारा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जो पेशेवर तरीके से घटना को अंजाम देना बताये। आरोपीगण अपने मेमोरेडम पर बताए कि तीनों साथ घूमना फिरना करते हैं। इसी दौरान चोरी की प्लानिंग बनाकर सिसरिंगा पहुंचे, जहां एक मोबाइल दुकान में चोरी की योजना बनाकर 1 अप्रैल की रात को जाकर तीनों पहले रैकी किए, रात में दुकान बंद होने तथा दुकानदार के घर जाने तक की पूरी

गतिविधियों की जानकारी लेकर फिर 3 अप्रैल की रात करीब 10:00 बजे तीनों रवि बंजारा के मोटरसाइकिल बजाज प्लेटिना में बैठकर सिसरिंगा के लिये निकले, रात्रि करीब 1:00 बजे सिसरिंगा पहुंचे आसपास के दुकानों की स्थिति पता कर मोबाइल दुकान के ताला को आरी पत्ती से काटकर अंदर घुसे और दुकान में रखे जितने सामान थे जिसमें नए पुराने मोबाइल, ब्लूटूथ, बैटरी, सीसीटीवी कैमरा, हार्ड डिस्क, कांभो एयर फोन, लाइट, पावर बैंक आदि सामान को एक बोरी में भरकर चोरी कर अपने घर ले गए। तीनों चोरी के सामान को आपस में हिस्सा बंटवारा कर लिए थे। आरोपियों के मेमोरेडम पर सोनू मोबाइल दुकान में चोरी हुए सामानों के अतिरिक्त अन्य सामान की बरामदगी पर आरोपियों से कड़ी पूछताछ करने पर आरोपियों ने इस चोरी के अलावा पूर्व अपने एक रिस्तेदार के साथ मिलकर लैलंगा में इसी प्रकार की चोरी करना कबूल किया। आरोपियों के मेमोरेडम पर मोबाइल दुकान में चोरी के सारे सामान के अलावा अन्य स्थान पर चोरी के सामान तथा चोरी में प्रयुक्त मोटर साइकल प्लेटिना की

जमी की गई है। प्रभारी धरमजयगढ़ उप निरीक्षक जेम्स कुजूर द्वारा लैलंगा थाना प्रभारी को लैलंगा क्षेत्र में हुए चोरी के माल बरामदगी की जानकारी दी गई है जिसकी तस्दीकी एवं अन्य आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, जिनके गिरफ्तारी पर अन्य अपराधों के खुलासा होने की संभावना है। गिरफ्तार आरोपी हस्त कुमार बंजारा पूर्व में कापू थानाक्षेत्र में मोटर साइकल चोरी में चालान हुआ है तथा उस पर मारपीट का अपराध भी कायम है। धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा 21 साल (3) हस्त कुमार बंजारा पिता तुला राम बंजारा 22 साल तीनों निवासी अलोला थाना कापू जिला रायगढ़ को नकबजनी के अपराधों में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के सुरपविजन पर मामले में माल मुल्जिम पतासाजी में उप निरीक्षक जेम्स कुजूर, प्रधान आरक्षक लक्ष्मी कैवर्त, उमाशंकर धुतान, आरक्षक पुष्पेन्द्र सिदार, राजेन्द्र राठिया की सहायता भूमिका रही है।

बदमाश प्रवृत्ति के युवक ने अधेड़ महिला के घर घुसकर की छेड़खानी, गिरफ्तार

आरोपी पहले भी बलात्कार के जुर्म में जा चुका है जेल

रायगढ़। दिनांक 07.05.2022 को पुलिस चौकी रैरुमाखुर्द में महिला द्वारा उसके गांव के विनय लकड़ा (उम्र 32 साल) द्वारा रात्रि में घुसकर छेड़खानी और मारपीट करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। महिला बताई कि दिनांक 04/05/2022 को उसकी बहू पड़ोस घर शादी में गई थी, वह अपने घर में अकेली थी। रात्रि करीब 08/00 बजे गांव का विनय लकड़ा घर में घुस आया और गंदी बातें कहकर जबरन उठाकर आंगन में ले आकर पकट दिया और मारने की धमकी देते हुए बुरी नियत से पहले कपड़े को खींचने लगा। तब चिल्लाई तो पड़ोसी लाइट लेकर आया जिसे देखकर विनय लकड़ा भाग गया। महिला अपने घरवालों और गांव के लोगों को घटना बताई। तब गांववाले पुलिस में रिपोर्ट करने की सलाह दिये। चौकी रैरुमाखुर्द, थाना धरमजयगढ़ में आरोपी पर अप.क्र. 75/2022 धारा 457,354,323,506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया।



चौकी प्रभारी रैरुमाखुर्द उप निरीक्षक जेम्स कुजूर द्वारा आरोपी पतासाजी के लिये उसके गांव पहुंचे, जहां गांववालों द्वारा आरोपी को आये दिन महिलाओं से छेड़खानी, अभद्रता करना बताये, चौकी प्रभारी द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। रैरुमा पुलिस द्वारा आरोपी विनय लकड़ा को पूर्व में युवती से दुष्कर्म के आरोप में चालान किया गया है।

मेयर व एमआईसी सदस्यों ने घर पहुंच कर दिया निवास और जन्म प्रमाण पत्र

मितान योजना के तहत आज 2 हितग्राहियों को घर पहुंचा कर दिया गया प्रमाण पत्र

रायगढ़। मितान योजना के तहत रायगढ़ नगर निगम के अंतर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह और निवास प्रमाण पत्र सहित 13 सेवाओं की घर पहुंच सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। रविवार को अवकाश होने के बाद भी मेयर जानकी काटजू, एमआईसी सदस्य एवं उपायुक्त ने 2 हितग्राहियों के घर पहुंच कर जन्म एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रदान किया। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना की शुरुआत की थी। यह योजना नगर निगम रायगढ़ में भी



शुरू हो गयी है। शुरुआत में नगर निगम क्षेत्र के लिए दो मितान की नियुक्ति की गई है, जो जन्म, मृत्यु, विवाह एवं स्थायी निवास सहित 13 प्रकार की सेवाओं को घर पहुंच कर हितग्राहियों को दे रहे हैं। आज सबसे पहले मि. मुड़ा निवासी भूपेंद्र सिंह ठाकुर पत्नी शारदा ठाकुर को 28 अप्रैल को पुत्री रत्न की प्रामि हुई थी। बच्चू का नाम उन्होंने किमाया रखा है। उन्होंने 14545 पर कॉल कर कर

के लिए आवेदन किया था। इस पर आज उन्हें मितान योजना के तहत मेयर काटजू, एमआईसी सदस्य, उपायुक्त एवं निगम के अधिकारियों और मितान ने उनके घर पहुंच कर उन्हें निवास प्रमाण पत्र दिया। इस मौके पर योजना के सहायक नोडल कृषि राठौर व निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

लाभार्थियों ने शासन की पहल को सराहा

प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों ने शासन की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस योजना से घर बैठे ही विभिन्न सेवाओं का लाभ मिल रहा है और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की हम डिलीवरी हो रही है। इससे निश्चित तौर पर नागरिकों के मेहनत और समय की बचत होगी।

देवगांव में तीन स्थानों पर चोरी करने वाले तीन चोर और एक खरीददार आए पुलिस के हाथ

आरोपियों से चोरी की कूलर, फ्रीज और टुल्लू पंप बरामद, आरोपियों को भेजा गया जेल

रायगढ़। दिनांक 07.05.2022 को ग्राम देवगांव के रहवासी थाना सरिया आकर अलग-अलग तीन स्थानों में चोरी से थाना प्रभारी सरिया उप निरीक्षक कमल किशोर पटेल को अवगत कराया गया। थाना प्रभारी सरिया द्वारा तत्काल अपने स्ट्राफ के साथ घटना दिनांक, समय के घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरों को चेक किया गया, जिस पर देवगांव के ऋतुराज सिदार उर्फ छोटू को हिरासत में लिया गया, जिसने गांव के गिरजानंद पटेल उर्फ दुर्गेश पटेल तथा ग्राम बोईरडीह, बरमकेला के चिंतामणी सिदार के साथ एक टुल्लू पंप, कूलर और एक फ्रीज को चोरी



करना कबूल किया। आरोपी ऋतुराज सिदार अपने साथी गिरजानंद पटेल उर्फ दुर्गेश पटेल के साथ चोरी किये गये टुल्लू पंप को बोईरडीह, बरमकेला के हेमानंद साहू को 2000 रुपये में बिक्री करना और रुपए को आपस में बांट देना बताया जिस पर हेमानंद साहू को चोरी की सम्पत्ति खरीदने के जर्म में गिरफ्तार किया गया है, चोरी के सारे सामानों की बरामदगी कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है। गिरफ्तार आरोपी (1) ऋतुराज सिदार उर्फ छोटू पिता मोहनलाल सिदार उम्र 21 वर्ष निवासी देवगांव थाना सरिया (2) चिंतामणि सिदार पिता कुरसो सिदार उम्र 20 वर्ष निवासी बोईरडीह, थाना बरमकेला (3) गिरजानंद पटेल उर्फ दुर्गेश पटेल पिता हेमराज पटेल उम्र 20 वर्ष निवासी देवगांव (4) चोरी का संपत्ति खरीदार- हेमानंद साहू पिता फकीर साहू उम्र 40 वर्ष निवासी बोईरडीह, थाना बरमकेला

ठेला से वर्ल्डपूल फ्रीज कीमती 11500 रु० को आरोपी ऋतुराज सिदार उर्फ छोटू और चिंतामणि सिदार द्वारा चोरी करना। (2) ग्राम पंचायत देवगांव द्वारा बाबा कुटी के पास स्थित पानी टंकी में लगाये गये हेवल्स कंपनी के 01 एचपी के टुल्लू पंप कीमती करीब 4000 रुपये को ऋतुराज सिदार और गिरजानंद पटेल उर्फ दुर्गेश पटेल चोरी कर हेमानंद साहू को बेचना। (3) सेवा सहकारी समिति देवगांव के बरामदा के दरवाजा में लगे ताला को तोड़कर कोई अज्ञात चोर द्वारा तोड़कर बरामदा में रखे सार्थक कंपनी के कूलर कीमती करीब 5000 रुपये को ऋतुराज सिदार और गिरजानंद पटेल उर्फ दुर्गेश पटेल चोरी करना उपरोक्त के संबंध में अज्ञात आरोपियों पर चोरी व नकबजनी का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

युवती से दुष्कर्म के आरोपी को घरघोड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 08.05.2022 को

घरघोड़ा पुलिस द्वारा ग्राम कोसमघाट के सत्यानंद राठिया पिता नारायण सिंह राठिया 40 साल को युवती से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। पीड़ित युवती दिनांक 06.05.2022 को थाना घरघोड़ा में सत्यानंद राठिया द्वारा जबरन पकड़कर घर अंदर ले जाकर दुष्कर्म करने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। युवती के बताये अनुसार दिनांक 10.04.2022 को जब वह अपने घर से कोसमघाट पहुंचा बेचने गई थी और महुआ बेचकर कोसमघाट अपने रिस्तेदार के घर जा रही थी तो रास्ते में आरोपी के ठिकानों पर दबिशा जा रहा था जिसे आज दिनांक 08.05.2022 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

अंदर ले गया और पानी में नशीली दवा मिला पिला दिया जिससे नशे में होई जिसका फायदा उठाकर सत्यानंद अपने



घर अंदर जबरन बलात संभोग किया। लोकलाज के भय से घटना का रिपोर्ट तुरंत थाना में दर्ज कराने नहीं गई अपने माता पिता परिवारवालों से सलाहकर दिनांक 06.05.22 को थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई, रिपोर्ट पर अप.क्र. 144/2022 धारा 342, 365, 376 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। घटना के बाद से आरोपी सत्यानंद फरार था, थाना प्रभारी द्वारा आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये मुखबिर लगाकर आरोपी के ठिकानों पर दबिशा जा रहा था जिसे आज दिनांक 08.05.2022 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

किशोर बालिका को शादी का प्रलोभन देकर युवक भगा ले गया पुणे, शारीरिक शोषण कर गांव लाकर छोड़ा

बरमकेला थाने में बालिका ने दर्ज कराई रिपोर्ट, आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा गया रिमांड पर

रायगढ़। दिनांक 08.05.2022 को थाना बरमकेला क्षेत्र में रहने वाली किशोर बालिका अपने परिवारों के साथ थाना आकर ग्राम बरगांव थाना सरिया निवासी मदन निषाद के विरुद्ध शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण कर घर लाकर छोड़ देना बताया। पीड़ित बालिका बताई कि मदन निषाद 05 अक्टूबर 2021 को शादी करने का झांसा देकर घर से भगा कर पुणे (महाराष्ट्र) ले गया था, जहां शादी किये बगैर शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब उसे शादी करने के लिये बोली तो वह मारपीट करता था। दिनांक 19/04/2022 को मदन गांव छोड़कर चला गया जिसे घर-परिवार वाले फोन कर समझाये तो उल्टे गाली गलौच करने लगा और मरने पीटने की धमकी देने लगा। पीड़िता बालिका को पुणे भगाकर ले जाकर बलात संभोग करना तथा जाति समाज की नहीं होने के कारण शादी नहीं करना बताया। आरोपी को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल के साथ आरोपी पतासाजी में प्रधान आरक्षक कुंवर टोम्पो, एडमोन खेस, आरक्षक प्रकाश गिरी गोस्वामी, सुरेन्द्र सिदार, अशोक केशव की अहम भूमिका रही।



के रिपोर्ट पर आरोपी मदन निषाद पर अप.क्र. 194/2022 धारा 363, 366, 376 IPC का, 6 Poos Act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल द्वारा आरोपी के संबंध में मुखबिरों से जानकारी ली गई जिसके उसके दीदी के घर रायगढ़ में छिपकर रहने की जानकारी मिली, तत्काल टीआई बरमकेला द्वारा आरोपी की पतासाजी के लिये रायगढ़ रवाना हुये आरोपी के रायगढ़ से फरार होने की जानकारी पर पीछा कर गोमडों जंगल के पास हिरासत में लेकर थाना लाया गया। आरोपी मदन निषाद पिता पदुमलाल निषाद 21 साल ग्राम बरगांव थाना सरिया द्वारा

छत्तीसगढ़ ने दुनिया को बताया गोबर की कीमत

भेंट-मुलाकात: जनकल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा फीडबैक

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेने के लिए आम जनों के बीच प्रक्रम रहे हैं। विधानसभाओं के दौरे के क्रम में आज चौथे दिन मुख्यमंत्री भट्टांग विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लटोरी पहुंचे। यहां ग्रामीणों से भेंट-मुलाकात के लिए आयोजित जन चौपाल को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके बीच आपको सुनने आया है, शासन ने जो योजनाएं बनाई हैं, उसके क्रियान्वयन की जानकारी लेने आया है। ग्राम करवां से जन चौपाल में पहुंची जनरल कुशवाहा ने मुख्यमंत्री को बताया कि गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर बेचकर उनकी आय हो रही है और इससे पहले गोबर की कीमत कोई नहीं जानता था, छत्तीसगढ़ ने पूरी दुनिया को गोबर के महत्व बताया दिया है। देश के कई राज्यों में गोबर खरीदी प्रक्रिया शुरू हो रही है।



जूरतमदों को फ री मद- मुख्यमंत्री ने भट्टांग विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी और समस्याओं का निराकरण भी किया। उन्होंने विश्वकर्मा समाज के मंगल भवन के लिए 10 लाख रूपए और ग्राम चंद्रमेहड़ा के यश पाण्डेय को हृदय रोग के इलाज के लिए 50 हजार रूपए की भेंटपूरी दी।

जी ने शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने स्वामी आत्मानंद के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को आमजनों के साथ साझा करते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद के योगदान को देखते हुए ही उनके नाम पर स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया था।

गौठान से बदल रही महिलाओं की जिन्दगी- ग्राम करवां गौठान में काम कर रही इंदिरा स्व-सहायता समूह की सदस्य सीता जायसवाल ने मुख्यमंत्री को गौठान खोलने के लिए धन्यवाद दिया। सीता जायसवाल ने बताया कि गौठान में रोजगार के